

राजधान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक सितम्बर, 2021 पर आधारित प्रेस विज्ञप्ति

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्य के थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 पर प्रतिमाह जारी किये जाते हैं। राज्य का माह सितम्बर, 2021 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 379.74 रहा। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक वृद्धि दर (सितम्बर, 2020) 13.33 प्रतिशत रही हैं। माह सितम्बर, 2021 में प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 409.49, ईंधन, शक्ति, प्रकाश, एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक 585.70 तथा विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक 292.37 रहा हैं। राज्य के थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह सूचकांक में परिवर्तन/विचलन की स्थिति निम्नानुसार हैं -

प्राथमिक वस्तु समूह (भार 33.894%): माह सितम्बर, 2021 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हो कर 409.49 रहा हैं। प्राथमिक वस्तु समूह के अंतर्गत कृषि समूह सूचकांक में 5.94 प्रतिशत वृद्धि जबकि खनिज समूह सूचकांक में 1.02 प्रतिशत की कमी रही। कृषि मद समूह में वृद्धि का मुख्य कारण कृषि वस्तुओं के उप समूह के खाद्य समूह सूचकांक में 3.02 प्रतिशत एवं अखाद्य समूह सूचकांक में 9.99 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा हैं। आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण अनाजों (6.15%), दालों (6.76%), दूध (0.66%), अंडा, मांस व मछली (0.88%), मसालों में (9.57%), रेशा (13.90%), तिलहन (8.98%) एवं अन्य अखाद्य (13.36%) की कीमतों में वृद्धि होना रहा हैं जबकि फलों (5.68%) एवं सब्जियों (5.91%) की कीमतों में कमी रही हैं। खनिज उप समूह के अंतर्गत आलोच्य माह में 1.02 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई जिसमें मुख्यतः सीसा (5.18%), चूना पत्थर (13.47%), चांदी में (2.21%), जिंक (0.59%) एवं ईटों (0.35%) की कीमतों में कमी जबकि स्टेटाईट (सोप स्टोन) में (12.66%) तथा चूना पत्थर (बर्न) में (29.03%) की वृद्धि पाई गई हैं। प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक में वार्षिक आधार पर सितम्बर, 2020 की तुलना में 22.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह (भार 16.253%): इस समूह का सूचकांक माह सितम्बर, 2021 में गत माह के सूचकांक 586.97 की तुलना में 0.22 प्रतिशत की कमी के साथ 585.70 पर रहा। समीक्षाधीन माह के दौरान सूचकांक में कमी का प्रमुख कारण पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस समूह की कीमतों में (0.35%) कमी होना रहा हैं। वार्षिक आधार पर सितम्बर, 2020 की तुलना में ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में 11.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

विनिर्मित उत्पाद समूह (भार 49.853%): विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक माह सितम्बर, 2021 में गत माह के सूचकांक 285.07 की तुलना में 2.56 प्रतिशत की वृद्धि हो कर 292.37 रहा। समीक्षाधीन माह के दौरान सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य उत्पादों (3.49%), लकड़ी एवं लड़की उत्पाद (2.75%), केमिकल (0.16%), गैर धातु एवं खनिज उत्पाद (5.02%), बुनियादी कीमती व लौह धातु (3.61%), सामान्य प्रयोजन मशीनरी (0.15%) तथा मोटर वाहन (0.05%) की कीमतों में वृद्धि होना रहा हैं। वार्षिक आधार पर सितम्बर, 2020 की तुलना में विनिर्मित उत्पाद समूह में 6.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हैं।

थोक मूल्य सूचकांक सितम्बर, 2021 आधार वर्ष (1999-2000=100) - तालिका

क्र.सं.	समूह	थोक भाव सूचकांक			प्रतिशत विचलन सितम्बर, 2021 में	
		सितम्बर 2021	अगस्त 2021	सितम्बर 2020	अगस्त 2021	सितम्बर 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	प्राथमिक वस्तु समूह	409.49	389.55	335.15	5.12	22.18
	(अ) - कृषि वस्तुओं के उप समूह	412.22	389.11	331.85	5.94	24.22
	(ब) - खनिज उप समूह	388.91	392.91	360.06	-1.02	8.01
II	ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह	585.70	586.97	523.77	-0.22	11.82
III	विनिर्मित उत्पाद समूह	292.37	285.07	273.48	2.56	6.91
	सामान्य सूचकांक	379.74	369.55	335.06	2.76	13.33

-Sd-

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा),

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज. जयपुर।